

1-मार-पीट, तोड़-फोड़ कर जान से मारने की धमकी देने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का अभियुक्त गिरफ्तार, थाना छजलैट:-

दिनांक 24.05.2022 को वादी श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र मनीराम निवासी ग्राम छज्जा नगला थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने, दस्तावेजों को फाड़ने, जान से मारने की धमकी देने, तोड़फोड़ करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में थाना छजलैट पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना छजलैट पर मु0अ0स0 120/2022 धारा 332, 353, 504, 506, 427, 440, 452 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त क्रम में आज दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री मोहम्मद तारिक थाना छजलैट द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त अरुण पुत्र नेमपाल निवासी छज्जा नगला थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के आधार पर धारा 186 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

4-अवैध तमंचे व कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन पाताल” के तहत आज दिनांक 26.05.2022 को श्री उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बिलारी मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित मोहम्मद आसिफ पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मोहल्ला अंसारीयान कस्बा व थाना बिलारी मुरादाबाद को 01 अवैधी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 204/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3-दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने का आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाइन्स:-*

दिनांक 25.05.2022 को वादिनी निवासिनी थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म व गर्भपात कराने, जाति सूचक शब्दों प्रयोग करने तथा वादिनी का वीडियो वायरल करने की धमकी देने के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-384/2022 धारा 376,313,506 आई0पी0सी0 व 3(2)(v) क, 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट किया गया। उक्त क्रम आज दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री मतीन अहमद थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित कृष्णा जोशी पुत्र तारादत्त जोशी निवासी मौहल्ला ट्यूबवेल कालोनी कांठ रोड थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद हाल निवासी हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-अवैध तमंचे व कारतूस सहित टॉप-10 अपराधी गिरफ्तार, थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन पाताल” के तहत आज दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री सतवीर सिंह थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित साबिर पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खैय्या खदर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा 12 बोर कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 166/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

5-नाबालिग का अपहरण करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2022 को वादी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-164/2022 धारा 363, 366, 323, 504 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त क्रम में आज दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री रियाज हैदर जैदी थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त रवि पुत्र पप्पू निवासी ग्राम बीजना थाना भोजपुर मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता को बरामद कर लिया गया।

6-एक-एक अवैध तमंचा सहित दो टॉप-10 अपराधी गिरफ्तार, थाना कोतवाली:-

आज दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री बीरेन्द्र सिंह राणा व उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना कोतवाली द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित थाना कोतवाली के टॉप-10 अपराधी फुरकान पुत्र रियासत निवासी वाडा शाहसफा थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद व जगदीश उर्फ गामा निवासी जीवन की सराय थाना कोतवाली को एक-एक अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0 - 77/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट वनाम फुरकान व मु0अ0सं0-78/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट वनाम जगदीश उर्फ गामा पंजीकृत किया गया।